



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 3 ] नई दिल्ली, फरवरी 6—फरवरी 12, 2005, शनिवार/माघ 17—माघ 23, 1926  
No. 3 ] NEW DELHI, FEBRUARY 6—FEBRUARY 12, 2005, SATURDAY/MAGHA 17—MAGHA 23, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय  
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का०नि०आ० 10.— रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 की 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और भारत सरकार के दिनांक 5-11-2001 के रक्षा मंत्रालय सा. नि. आ. 225 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि पंजाब राज्य के भटिंडा में गोलाबारूद डिपो के निकट होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, भटिंडा, पंजाब राज्य के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के भटिंडा में रक्षा संकर्म अर्थात् गोलाबारूद डिपो के प्राकार की बाहरी परिधि से 1200 गज (1097.28 मी.) की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[ सं. पीसी टू एम एफ बी/50542/एडी भटिंडा/एलडब्ल्यू(पश्चिम)/179 ]

सहेली घोष राय, अपर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 2nd February, 2005

S.R.O. 10.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence number SRO 225, dated the 5th November, 2001, the Central Government hereby declares that it is necessary to impose the restrictions specified in clauses (a) to (c) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule below, being land lying in the vicinity of Ammunition Depot at Bhatinda, in the State of Punjab, with a view to keep the said land free from buildings and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Bhatinda, in the State of Punjab.

### SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of 1200 yards (1097.28 metres) from the crest of the outer parapet of the Works of Defence, namely, the Ammunition Depot at Bhatinda, in the State of Punjab.

[No. PC to MF B/50542/AD Bhatinda/LW(West)/179]

SAHELI GHOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का०नि०आ० 11.— रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 की 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि हरियाणा राज्य में जिला अम्बाला के अम्बाला छावनी में गोलाबारूद गोदाम, नारायणगढ़ रोड के निकट होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (क) में इस अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, अम्बाला, हरियाणा राज्य के कार्यालय में किया जा सकता है।

### अनुसूची

हरियाणा राज्य के जिला अम्बाला में रक्षा संकर्म अर्थात् गोलाबारूद गोदाम, नारायणगढ़ रोड, अम्बाला छावनी के प्राकार की बाहरी परिधि से 1200 गज (1097.28 मी.) की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[सं. पीसी टू एमएफबी/50542/एडी नारायणगढ़/एलडब्ल्यू(पश्चिम)/संस्करण-1]

सहेली घोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd February, 2005

S.R.O. 11.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declare that it is necessary to impose restrictions specified in clause (a) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule below, being land lying in the vicinity of Ammunition Dump, Naraingarh Road, Ambala Cantonment, District Ambala in the State of Haryana, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Ambala in the State of Haryana.

### SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within a distance of 1200 yards (1097.28 metres) from the crest of the outer parapet of the Works of Defence, namely, Ammunition Dump, Naraingarh Road, Ambala Cantonment, District Ambala in the State of Haryana

[No. PC to MF B/50542/AD Naraingarh/ LW(West)/Vol. II]

SAHELI GHOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का०नि०आ० 12.— रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 की 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि राजस्थान राज्य के जिला बाड़मेर के जसई में 25 गोलाबारूद कंपनी, द्वारा 56 एपीओ के निकट होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम

की धारा 7 के खंड (क) में इस अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, जिला बाड़मेर, राजस्थान राज्य के कार्यालय में किया जा सकता है।

### अनुसूची

राजस्थान राज्य के जिला बाड़मेर के गांव दन्ता, दरुदा, मित्री खुर्द में रक्षा संकर्म अर्थात् 25 गोलाबारूद कंपनी, द्वारा 56 एपीओ, जसई के बाहरी दीवार के किनारे से दो हजार गज (1828.8 मी.) की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[ सं. पीसी 47427/बी/III/एल(दक्षिण) ]

सहेली घोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd February, 2005

**S.R.O. 12.**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (a) of Section 7 of said Act upon the use and enjoyment of the land situated in the District of Barmer in the State of Rajasthan, described in the Schedule given below, being land lying in the vicinity of 25 Ammunition Company, C/o 56 APO at Jasai in the District of Barmer in the State of Rajasthan in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions from the date of publication of notification in the Official Gazette.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Barmer, Rajasthan.

### SCHEDULE

All the land falling within a distance of two thousand yards (1828.8 metres) from the outer perimeter wall of the Works of Defence, namely, 25 Ammunition Company, C/o 56 APO, Jasai at Villages Danta, Daruda, Mithri Khurd, District Barmer in the State of Rajasthan.

[No. PC 47427/B/III/L(South)]

SAHELI GHOSH ROY, Under Secy.